

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2015—आषाढ़ 5, शक 1937

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 22 जून 2015

पत्र क्र. 2403-स्था.निर्वा.-2015.—नगरपालिक निगम निर्वाचन 2014-15 के महापौर एवं पार्षद पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित अभ्यर्थियों को प्रदाय प्रारूप-24 निर्वाचन के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति आयोग को भेजी गई थी जिसके आधार पर शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 58, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015 में प्रकाशित निर्वाचन परिणाम में क्र. 45 पर वार्ड क्रमांक 44 से निर्दलीय रूप से निर्वाचित पार्षद का नाम रूपेश देवलिया मुद्रित हुआ है, जबकि उनको प्रदाय प्रमाण-पत्र प्रारूप-24 में रूपनारायण देवलिया अंकित कर प्रदाय किया गया है, कृपया निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

संशोधित

क्र.	नगर निगम का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/पार्षद	वार्ड क्र. अंकों में	केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से संबद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	नगरपालिक निगम, इन्दौर, जिला इन्दौर.	पार्षद	44	चौवालीस	रूपनारायण देवलिया	निर्दलीय

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.